

सवितृसम्बन्धिनि च चि । यथा, मनुः । ४ ।
१५० ।

“सावित्रान् शान्तिहोमांश्च कुर्व्यात् पर्वसु
नित्यम् ॥”

सावित्री, स्त्री, शास्त्रदेशीयसत्यवदराजपत्नी । सा
तु मद्रदेशीयाश्वपतिराजकन्या ॥ (अस्या विशेष-
विवरणन्तु महाभारते वनपर्वणि २६२ अध्याय-
मारभ्य द्रष्टव्यम् ॥) उमा । इति मेदिनी ॥
तन्नामकरणं यथा,—

“त्रिदशैरक्षिता देवी वेदयोगेषु पूजिता ।
भावशुद्धस्वरूपा तु सावित्री तेन सा स्मृता ॥”
इति देवीपुराणे ४४ अध्यायः ॥

अपि च ।

“सर्वत्रोक्तप्रसवनात् सविता स तु कीर्ष्यते ।
यतस्तद्देवता देवी सावित्रीत्युच्यते ततः ।
वेदप्रसवनाच्चापि सावित्री प्रोच्यते तुषेः ॥”

इति बह्विपुराणे ब्राह्मणप्रशंसानामाध्यायः ॥
गायत्री । इति त्रिकाण्डशेषः ॥ * (उप-
नयनकर्म्म । यथा, मनुः । २ । ३८ ।

“आ षोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्त्तते ।
आ द्वाविंशत् क्षत्रवन्धोरा चतुर्विंशतिर्विषयः ॥”
“सावित्रीशब्देन तदनुवचनसाधनमुपनयनाख्यं
कर्म्म लक्ष्यते ॥” इति मेधातिथिः ॥ ब्रह्मपत्नी ।
सा तु सवितुः पत्न्यां पत्न्यां जाता । अस्या
उत्पत्तिनामान्तराणि यथा,—

“ततः संजपतस्तस्य भित्त्वा देहमकल्पयम् ।
स्त्रीरूपमर्द्धमकरोदहं पुरुषरूपवत् ॥
शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते ।
सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥”

इति मातृयः । ३ । ३०—३२ ॥*

तस्या शतनामानि यथा,—

विष्णुत्वाच ।

“सावित्री पुष्करे नाम तीर्थानां प्रवरे शुभे ।
वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषे लिङ्गधारिणी ।
श्रयागे ललिता देवी कामुका गन्धमादने ।
मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथास्वरे ॥
गोमते गोमतौ नाम मन्दारे कामचारिणी ।
मदीकाटी चैत्रधे जयन्ती हस्तिनापुरे ॥
कान्यकुब्जे तथा गौरी रक्षा मलयपर्वते ।
एकाम्बिके कीर्त्तिसती विश्वा विश्वेश्वरे तथा ॥
जवा वराहशैले तु कमला कमलालये ।
बृद्रकोत्मान् बृद्राणी काली कालक्षरे गिरी ॥
महालिङ्गे तु कपिला कर्कोटे मुकुटेश्वरी ।
शालग्रामे महादेवौ शिवलिङ्गे जनप्रिया ॥
नीलोत्पला मायापुथ्यां सन्दन्ती ललिते तथा ।
उत्पलाक्षी साहस्राक्षे हिरण्णाक्षी महोत्पले ॥
गङ्गायां मङ्गला नाम विमला पुरुषोत्तमे ।
विशालायाममोघाक्षी पाण्डुला पाण्डुपर्वते ॥
नारायणी सुपर्श्वे तु त्रिकूटे बृद्रघन्दरी ।
विपुले विपुला नाम कल्याणी मलयचले ॥
कोटरी कोटरीतीर्थे सगन्धा गन्धमादने ।
कुजाब्जके शिसन्धा तु गङ्गाहारे हरिप्रिया ॥

शिवचण्डे शुभा चण्डा नन्दिनी देविकातटे ।
रक्षिणी हारवत्यान्तु राधा हृन्दावने वने ॥
देवकी मथुरायान्तु पाताले परमेश्वरी ।
सीता बिम्ब्ये तथा रौद्री कालिन्ध्यां बिम्ब्य-
शानिनी ॥

सङ्गाद्राविकवीरा तु हरिचन्द्रे तु चन्द्रिका ।
रमणा रामतीर्थे तु यमुनायां शृगावती ॥
करवीरे महालक्ष्मोश्मा देवो विनायके ।
अरोगी तु रोगहन्तो महाकाले महेश्वरी ॥
अभयेत्यण्णतौर्धे तु अस्तुता बिम्ब्यकन्दरे ।
माण्डव्ये माद्रवी देवो महागौरी महेश्वरी ॥
गणेशे च प्रचण्डा तु चण्डिकामरकण्टके ।
सोमेश्वरी वराहे तु प्रभासे पुष्करावती ॥
देवी माता सरस्वत्यां पारावारतटे स्थिता ।
महालये महापद्मा पयोष्ण्यां पिङ्गलेश्वरी ।
सिंहिका कतस्यैरे च कार्तिकेये तु शङ्करौ ।
उत्पलावर्त्तके काला सुभद्रा सिन्धुसङ्गमे ॥
माता सिन्धुवने लक्ष्मीस्तरङ्गा भरताश्रमे ।
जालन्धरे विश्वसुखी तारका बिम्ब्यपर्वते ॥
देवदारवने पुष्टिर्मेधा काश्मीरमण्डले ।
भीमा देवी हिमाद्रौ तु सेतुर्वर्त्तकेश्वरे तथा ॥
कपालमोचने शुद्धा माता कायावरोहणे ।
शङ्कोहारे ध्वनिर्नाम धृतिः पिङ्गारके वने ॥
काली तु चन्द्रभागायामचीदे सिद्धिदायिनी ।
नरनारायणे देवी वदर्यामुष्मेशी तथा ॥
ओषधीशोत्तरकुले कुशद्वीपे कुशोदका ।
मन्मथा हेमकूटे तु कुमुदे सत्यवादिनी ॥
अश्वत्यवन्धनीका तु विविक्ते अमणालये ।
मायसौ वेदशालायां सावित्री ब्रह्मसन्निधौ ॥
सूर्यविम्बे प्रभा नाम मातृणां वैष्णवी मता ।
अरुन्धती सतीनान्तु रामासु च तिलोत्तमा ॥
व्रजे ब्रह्मकला नाम शक्तिः सर्वेश्वरीरिणाम् ।
एतदुद्देशतः प्रोक्तं नामाष्टशतमुत्तमम् ॥
अष्टोत्तरश्व तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम् ।
यो जपेत्पुण्ययाद्यापि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
एषु तीर्थेषु यत् कृत्वा स्नात्वा पश्येन्नरो हिः यः
सर्वपापविनिर्मुक्तः कल्पं ब्रह्मपुरे वसेत् ॥
नामाष्टशतकं यस्तु श्रावयेद्ब्रह्मसन्निधौ ।
पौर्णमास्याममावस्यां बहुपुत्रो भवेन्नरः ॥
गोदाने श्राद्धदाने च अहन्त्यहनि वा पुनः ।
देवार्चनविधौ विद्वान् परं ब्रह्माधिगच्छति ॥”
इति पद्मपुराणे षष्टिखण्डे १७ अध्यायः ॥*

अपि च ।

नारद उवाच ।

“तुलस्युपाख्यानमिदं श्रुतमीश सुधोपमम् ।
तत्तु सावित्रुपाख्यानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥
पुरा येन समुद्भूता सा श्रुता च श्रुतिप्रदः ।
केन वा पूजिता देवी प्रथमे कौशे वा परे ॥

नारायण उवाच ।

ब्रह्मणा वेदजननी पूजिता प्रथमे सुने ।
द्वितीये च वेदगणैस्तत्पूषाद्विदुषां गणैः ॥
तदा चाश्वपतिः पूर्वं पूजयामास भारते ।

तत्पश्चात् पूजयामासर्वर्षाश्चत्वार एव च ॥”

इति ब्रह्मवैवर्त्ते प्रकृतिकण्डे । २३ । १—४ ॥
सावित्रीव्रतं, स्त्री, (सावित्र्या व्रतम् ।) ज्येष्ठ-
कृष्णचतुर्दश्यां स्त्रीकर्त्तव्यनियमविशेषः । तद्वि-
वरणं यथा, । पराशरः ।

“भेषे वा हवभे वापि सावित्रीं तां विनिर्दिशेत् ॥”
तां चतुर्दशीम् ।

“ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां सावित्रीमर्चयन्ति याः ।
वटमूले सोपवासा न ता वैधव्यमाप्नुयुः ॥”
राजमार्त्तकृत्यचिन्तामण्योः ।

“ज्येष्ठे मासि चतुर्दश्यां सावित्रीव्रतमुत्तमम् ।
अवैधव्याय कुर्वन्ति स्त्रियः श्वासासन्विताः ॥”
व्रतमात्रे तु अनन्तचतुर्दशीव्रतोक्तमाचरन्ति ।

दृष्टपरिकल्पनान्यायात् । तदुक्तं मत्स्यपुराणे ।
“गर्भिणी सृतिका नक्तं कुमारौ च रजस्वला ।
यदाशुद्धा तदान्यं न कारयेत् क्रियते सदा ॥”

उपवासाशक्तौ नक्तं भोजनं कुर्व्यात् ।
“उपवासेष्वशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते ।”
इति तद्भूतवचनान्तरात् । अशुद्धा चेत् पूजां

कारयेत् । कायिकञ्चोपवासादिकं सदा शुद्धया
अशुद्धया च स्वयं क्रियते । एवं कृतिपरि-
भाषायां वदमानोपाध्यायाः । नारदः ।

“दिवाभागे त्रयोदश्यां यदा चतुर्दशी भवेत् ।
तत्र पूज्या महासाध्वी देवी सत्यवता सह ॥”
दिवाभागे दण्डद्वयमात्रसत्त्वेऽपि अतएव प्रदोषे

व्रतमाचरन्ति । पूर्वाह्णे तद्विधत्वेऽपि पराह
त्रिसन्ध्यव्यापित्वे पराह एव त्रिसन्ध्यव्यानीति
वचनात् । यदा तु पूर्वापरयोर्न तथाविधा ।

तदापि पराह एव । यथा । ज्योतिषे ।
“चतुर्दश्याममावास्या यदा भवति नारद ! ।
उपोष्य पूजनीया सा चतुर्दश्यां विधानतः ॥”

सा सावित्री । ततश्चामावास्यायां सावित्रीव्रत-
विधानं शिवा घोरा तथा प्रोतेति वचनञ्चेतत्-
परम् । पराशरः ।

“सावित्रीमर्चयित्वा तु फलाहारा परेऽहनि ।
ततश्चाविधवा नारी वित्तभोगान् लभेत सा ॥”
इति तिथ्यादितत्त्वम् ॥

अन्यत् वनपर्व्यासावित्रीव्रतकथायां द्रष्टव्यम् ।
सावित्रीसूत्रं, स्त्री, (सावित्रीदेवाकालिक-
सूत्रम् ।) यज्ञोपवीतम् । इति शब्दरत्नावली ॥

साशयन्दकः, पुं, ज्येष्ठी । इति केचित् ॥
साशुकः, पुं, कम्बलः । इति हारावली । १५६ ॥
सानुधीः, स्त्री, श्वशुरः । इति त्रिकाण्डशेषः ॥

साख्यताम्बा, स्त्री, (साख्य अख्यसहितं
ताम्बाई यच ।) कांस्यम् । इति त्रिकाण्ड-
शेषः ॥

साक्षा, स्त्री, (पस स्वप्न + “राज्ञासाक्षासूणा-
वीणाः” उणा० ३ । १५ । इति नप्रत्ययेन
साधुः । गलकम्बलः । इत्यमरः । २ । ८ । ६३ ॥

(यथा, माघे । ५ । ६२ ।
“रोमन्मन्थरचलदगुरुसाक्षमासा-
ञ्चक्रे निमीलदलसिञ्चणभौचक्रेण ॥”)